













Part I / भाग I

Aptitude Test / अभिरुचि परीक्षण

Directions : (For Q. 1 to 3).
निर्देश : (प्र. 1 से 3 के लिए)।

Find the odd figure out in the problem figures given below :
नीचे दी गई प्रश्न आकृतियों में से, विषम आकृति बताए।



Directions : (For Q. 4 and 5).








निर्देश : (प्र. 4 और 5 के लिए)।

One of the answer figures given below is hidden in the problem figure, in the same size and direction. Select, which one is correct.

नीचे दी गई उत्तर आकृतियों में से एक आकृति माप और दिशा में समान रूप से प्रश्न आकृति में छिपी है। कौनसी सही है, चुनिए।

Problem Figure / प्रश्न आकृति

Answer Figures / उत्तर आकृतियाँ



Directions : (For Q. 6 to 12).



The 3-D problem figure shows an object. Identify, the correct view, from amongst the answer figures, looking in the direction of the arrow.

निर्देश : (प्र. 6 से 12 के लिए)।


3-D प्रश्न आकृति में एक वस्तु को दिखाया गया है। तीर की दिशा में देखते हुए इसके सही दृश्य को उत्तर आकृतियों में से पहचानिए।

Problem Figure / प्रश्न आकृति


6.




(1)



(2)





(3)




(4)


7.




(1)



(2)





(3)




(4)


8.




(1)



(2)



✓ (3)





(4)


Problem Figure / प्रश्न आकृति

Answer Figures / उत्तर आकृतियाँ


9.



(1)



(2)






(3)




(4)


10.




(1)



(2)





(3)



(4)


11.




(1)



(2)





(3)



(4)


12.




(1)



(2)



(3)



(4)

Directions : (For Q. 13).

How many total number of rectangles are there in the problem figure given below ?


निर्देश : (प्र. 13 के लिए)।

नीचे दी गई प्रश्न आकृति में आयतों की कुल संख्या कितनी है?

Problem Figure / प्रश्न आकृति



13.



$6+4+2+1+3+2$

(1) 19

(2) 20

(3) 17

(4) 18

Directions : (For Q. 14 and 15).

How many total number of triangles are there, in the problem figures given below ?


निर्देश : (प्र. 14 और 15 के लिए)।

नीचे दी गई प्रश्न आकृतियों में त्रिभुजों की कुल संख्या कितनी है?

Problem Figure / प्रश्न आकृति

$8+4+2$

14.




(1) 18

(2) 20

(3) 16

(4) 17

15.



(1) 17

(2) 19

(3) 20

(4) 18

Directions : (For Q. 16 and 17).



निर्देश : (प्र. 16 और 17 के लिए)।

The problem figure shows the top view of an object. Identify the correct front view, from amongst the answer figures.

प्रश्न आकृति में किसी वस्तु का ऊपरी दृश्य दिखाया गया है। उत्तर आकृतियों से इसका सही समुख दृश्य पहचानिए।


Problem Figure / प्रश्न आकृति

16.




(1)


Answer Figures / उत्तर आकृतियाँ



(2)




(3)



(4)


17.




(1)



(2)



(3)



(4)

Directions : (For Q. 18 and 19).



निर्देश : (प्र. 18 और 19 के लिए)।

The 3 - D problem figure shows an object. Identify, its correct top view, from amongst the answer figures.


3 - D प्रश्न आकृति में एक वस्तु को दिखाया गया है। इसका सही ऊपरी दृश्य उत्तर आकृतियों में से पहचानिए।

Problem Figure / प्रश्न आकृति


18.




(1)



(2)





(3)




(4)


19.




(1)



(2)



(3)



(4)

Directions : (For Q. 20 to 23).

निर्देश : (प्र. 20 से 23 के लिए)।






Problem Figure / प्रश्न आकृति

Which one of the answer figures is the correct mirror image of the problem figure with respect to X - X ?






उत्तर आकृतियों में से कौनसी आकृति दी गई प्रश्न आकृति का X - X पर सही दर्पण प्रतिबिम्ब है?

Answer Figures / उत्तर आकृतियाँ






20.








21.



22.



23.




Directions : (For Q. 24 to 27).

Which one of the answer figures, will complete the sequence of the three problem figures ?

निर्देश : (प्र. 24 से 27 के लिए)।


उत्तर आकृतियों में से, कौनसी आकृति को तीन प्रश्न आकृतियों में लगाने से अनुक्रम (sequence) पूरा हो जाएगा ?

Problem Figures / प्रश्न आकृतियाँ



?

Answer Figures / उत्तर आकृतियाँ




(1)


(2)

(3)

(4)



?




(1)


(2)

(3)

(4)



?




(1)


(2)

(3)

(4)



?



(1)

(2)

(3)

(4)

Directions : (For Q. 28 to 32).


निर्देशः (प्र. 28 से 32 के लिए)

Problem Figure / प्रश्न आकृति

Find out the total number of surfaces of the object given below, in the problem figure.

प्रश्न आकृति में निम्नांकित वस्तु के, सतहों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए।

28.



(1) 17


~~(2)~~ 18

(3) 16

(4) 15



29.




(1) 20

(2) 22

(3) 19

(4) 18

30.




(1) 16

~~(2)~~ 17

(3) 20

(4) 18

31.




(1) 13

(2) 12

~~(3)~~ 14

(4) 15

32.



~~(1)~~ 12

~~(2)~~ 13

(3) 15

(4) 14

Directions : (For Q. 33 to 35). Which one of the answer figures shows the correct view of the 3 - D problem figure, after the figure is opened up ?

निर्देश : (प्र. 33 से 35 के लिए)।



3 - D प्रश्न आकृति को खोलने पर, उत्तर आकृतियों में से, सही दृश्य कौनसा है?

Problem Figure /


प्रश्न आकृति

Answer Figures / उत्तर आकृतियाँ


33.



34.



35.



36. Which one of the following consumes least amount of electricity ?
- Fluorescent Tube
 - Light Emitting Diodes (LED)
 - Tungsten Bulb
 - Compact Fluorescent Lamp (CFL)
37. Qutab Minar is largely cladded with :
- Marble
 - Brick
 - Granite
 - Red sand stone
38. In which place in India can we find cave temples of three faiths ?
- Ellora
 - Agra
 - Madurai
 - Delhi
39. Which one of the following cities in India lie in Cold and Dry region ?
- Leh
 - Gangtok
 - Simla
 - Darjeeling
40. Which one is not a sound absorbing material ?
- Glass wool
 - Ground glass
 - Jute bags
 - Thermocol
36. निम्नलिखित में से कौनसा, बिजली की खपत को सबसे कम करता है ?
- प्रतिदीप्ति नलिका
 - प्रकाश उत्सर्जक डायोड (LED)
 - टंगस्टेन बल्ब
 - संहत (Compact) प्रतिदीप्ति लैंप (CFL)
37. कुतुब मीनार पर किससे अधिकतर पर्त चढ़ाई गई है ?
- संगमरमर से
 - ईटों से
 - ग्रेनाइट से
 - लाल बलुआ पत्थर से
38. भारत में किस जगह पर हमें तीन धर्मों के गुफा मंदिर मिलते हैं ?
- एलोरा में
 - आगरा में
 - मदुरई में
 - दिल्ली में
39. भारत के, निम्नलिखित शहरों में से, कौनसा ठंडे और शुष्क इलाके में पड़ता है :
- लेह
 - गैंगटोक
 - शिमला
 - दार्जिलिंग
40. कौनसा पदार्थ ध्वनि अवशोषक नहीं है ?
- काँच की रुई
 - घिसा काँच
 - पटसन बोरी
 - थर्मोकोल

- | | |
|---|---|
| <p>41. Palace of winds (Hawa Mahal) is located in :</p> <ol style="list-style-type: none"> Jammu and Kashmir Andhra Pradesh Madhya Pradesh Rajasthan <p>42. Horizontal sun shades are required to protect windows on which facades of a building ?</p> <ol style="list-style-type: none"> West North South East <p>43. Name the city where canals are used as transportation channels :</p> <ol style="list-style-type: none"> Venice Tokyo Canberra Manhattan <p>44. Which type of roof will keep the room cooler ?</p> <ol style="list-style-type: none"> Concrete slab with mud, brick tiles and covered with potted plants Asbestos sheet roofing Concrete slab with cement plaster Concrete slab with mud and brick tiles <p>45. Which city is based on sector planning ?</p> <ol style="list-style-type: none"> Kolkata Pune Patna Chandigarh | <p>41. हवा महल कहाँ स्थित है ?</p> <ol style="list-style-type: none"> जम्मू और कश्मीर में आंध्र प्रदेश में मध्य प्रदेश में राजस्थान में <p>42. क्षैतिज छज्जे, भवन के किस ओर के बाहरी भाग : खिड़कियों को सूर्य की किरणों से बचाते हैं ?</p> <ol style="list-style-type: none"> पश्चिम उत्तर दक्षिण पूर्व <p>43. उस शहर का नाम बतायें, जहाँ नहरें, यातायात के में प्रयोग में आती हैं ?</p> <ol style="list-style-type: none"> वेनिस टोकियो कैनबरा मैनहटन <p>44. किस तरह की छत कमरे को ठंडा रखेगी ?</p> <ol style="list-style-type: none"> कंक्रीट की छत, गरे, ईंटों की टाईलों गमले के पौधों से ढकी हुई एस्बेस्टोस चादर की छत कंक्रीट की छत, सीमेंट प्लास्टर के साथ कंक्रीट की छत, गरे और ईंटों की टाईल ढकी हुई <p>45. कौनसा शहर 'सेक्टर प्लानिंग' पर आधारित है ?</p> <ol style="list-style-type: none"> कोलकाता पुणे पटना चंडीगढ़ |
|---|---|

- | | |
|---|---|
| <p>46. Which one of the following is an Architect ?</p> <ol style="list-style-type: none"> Christopher Benninger Salman Rushdie Amrita Sher-Gill M.F. Hussain <p>47. The summer sun in Northern Hemisphere rises from :</p> <ol style="list-style-type: none"> North East East North South East <p>48. Point out the incorrect combination :</p> <ol style="list-style-type: none"> Eiffel Tower and Congo Agora and Greece Pagoda and Burma Vat and Cambodia <p>49. Which one of the following is a horizontal member in a building that carries load ?</p> <ol style="list-style-type: none"> Vault Beam Arch Column <p>50. Natural shadowless light is available from which direction in India ?</p> <ol style="list-style-type: none"> East North South North-West | <p>46. निम्नलिखित में से कौन एक वास्तुकार है?</p> <ol style="list-style-type: none"> क्रिस्टोफर बेनिंगर सलमान रुशदी अमृता शेर-गिल एम.एफ. हुसैन <p>47. गर्मियों में, उत्तरी गोलार्द्ध में, सूर्य कहाँ से निकलता है?</p> <ol style="list-style-type: none"> उत्तर पूर्व से पूर्व से उत्तर से दक्षिण पूर्व से <p>48. अशुद्ध संयोजन को बताएँ :</p> <ol style="list-style-type: none"> आइफल टॉवर और कांगो अगोरा और ग्रीस पैगोडा और बर्मा वैट और कम्बोडिया <p>49. निम्नलिखित में से कौनसा इमारत का एक क्षैतिज संरचनात्मक भाग है जो कि भार वहन करता है?</p> <ol style="list-style-type: none"> मेहराबी छत (वॉल्ट) बीम मेहराब (आर्च) स्तंभ (कॉलम) <p>50. भारत में, बिना छाया का प्राकृतिक प्रकाश किस दिशा से उपलब्ध है?</p> <ol style="list-style-type: none"> पूर्व से उत्तर से दक्षिण से उत्तर-पश्चिम से |
|---|---|

Part II / भाग II
Mathematics / गणित

51. Let $y^2 = 16x$ be a given parabola and L be an extremity of its latus rectum in the first quadrant. If a chord is drawn through L with slope -1 , then the length of this chord is :

- (1) $16\sqrt{3}$
- (2) $32\sqrt{2}$
- (3) 32
- (4) $16\sqrt{2}$

$$y^2 = 16x$$

-1

52. If the quadratic equation

$$3x^2 + 2(a^2 + 1)x + (a^2 - 3a + 2) = 0$$

possesses roots of opposite signs, then a lies in the interval :

- (1) (1, 2)
- (2) (2, 3)
- (3) $(-\infty, -1)$
- (4) $(-1, 1)$

53. If p is any logical statement, then :

- (1) $p \wedge p = p$
- (2) $p \vee (\sim p) = p$
- (3) $p \wedge (\sim p)$ is a tautology
- (4) $p \vee (\sim p)$ is a contradiction

51. माना $y^2 = 16x$ एक दिया गया घरवलय है तथा L इसके नाभिलंब का प्रथम चतुर्थांश में एक छोर है। यदि L से होकर जाने वाली एक जीवा है, जिसकी ढाल -1 है, तो इस जीवा की लंबाई है :

- (1) $16\sqrt{3}$
- (2) $32\sqrt{2}$
- (3) 32
- (4) $16\sqrt{2}$

$$\begin{array}{l} y^2 = 16x \\ \Delta = 16x \end{array}$$

52. यदि द्विघात समीकरण

$$3x^2 + 2(a^2 + 1)x + (a^2 - 3a + 2) = 0$$

के मूल विपरीत चिन्हों के हैं, तो a जिस अंतराल में है, वह है :

- (1) (1, 2)
- (2) (2, 3)
- (3) $(-\infty, -1)$
- (4) $(-1, 1)$

53. यदि p एक तर्क संगत कथन है, तो :

- (1) $p \wedge p = p$
- (2) $p \vee (\sim p) = p$
- (3) $p \wedge (\sim p)$ सदा सत्य है।
- (4) $p \vee (\sim p)$ एक विरोधोक्ति है।

54. From a window x meter high above the ground, in a street, the angles of elevation and depression of the top and the foot of another house exactly opposite to the window in the same street are α and β respectively. Then the height (in meters) of the house on the opposite side is :

- (1) $x(1 + \cot\alpha \tan\beta)$
- (2) $x(1 + \cot\alpha \cos\beta)$
- (3) $x(1 + \tan\alpha \cot\beta)$
- (4) $x(1 + \tan\alpha \cos\beta)$

55. The least positive integral value of x which satisfies the inequality ${}^{10}C_{x-1} > 2 \times {}^{10}C_x$ is :

- (1) 9
- (2) 6
- (3) 5
- (4) 8

56. The rate of change of the volume of a sphere with respect to its surface area, when the radius is 2 units, is :

- (1) 2
- (2) 1
- (3) 4
- (4) 3

57. If m is the slope of a tangent to the curve $e^y = 1 + x^2$, at the point (x, y) on the curve, then all possible values of m lie in the interval :

- (1) $(-\infty, -1)$
- (2) $[-1, 1]$
- (3) $[0, 1]$
- (4) $(1, \infty)$

54. एक गली में, भूमि से x मी. की ऊँचाई पर स्थित एक खिड़की से उसी गली के सामने की ओर स्थित भवन के शिखर तथा पाद के उन्नयन तथा अवनमन कोण क्रमशः α तथा β हैं। तो सामने वाले भवन की ऊँचाई (मीटरों में) है :

- (1) $x(1 + \cot\alpha \tan\beta)$
- (2) $x(1 + \cot\alpha \cos\beta)$
- (3) $x(1 + \tan\alpha \cot\beta)$
- (4) $x(1 + \tan\alpha \cos\beta)$

55. x का वह न्यूनतम धनात्मक पूर्णांकीय मान, जो असमिका ${}^{10}C_{x-1} > 2 \times {}^{10}C_x$ को संतुष्ट करता है, है :

- (1) 9
- (2) 6
- (3) 5
- (4) 8

56. एक गोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल के सापेक्ष इसके आयतन के परिवर्तन की दर, जब उसकी त्रिज्या 2 इकाई है, है :

- (1) 2
- (2) 1
- (3) 4
- (4) 3

57. यदि वक्र $e^y = 1 + x^2$, के बिंदु (x, y) पर एक स्पर्श रेखा की ढाल m है, तो m के सभी संभव मान जिस अंतराल में स्थित हैं, वह है :

- (1) $(-\infty, -1)$
- (2) $[-1, 1]$
- (3) $[0, 1]$
- (4) $(1, \infty)$

58. A common tangent to $x^2 - 2y^2 = 18$ and $x^2 + y^2 = 9$ is :
- $y = 2x + 3\sqrt{7}$
 - $y = \sqrt{2}x + 3\sqrt{5}$
 - $y = 2x + 3\sqrt{5}$
 - $y = \sqrt{2}x + 3\sqrt{3}$
59. The coefficient of t^{24} in $(1+t^2)^{12}(1+t^{12})(1+t^{24})$ is :
- ${}^{12}C_6 + 1$
 - ${}^{12}C_6$
 - ${}^{12}C_6 + 13$
 - ${}^{12}C_6 + 2$
60. If the system of linear equations, $x + 2ay + az = 0$, $x + 3by + bz = 0$ and $x + 4cy + cz = 0$ has a non-zero solution, then a, b, c satisfy :
- $2ac = ab + bc$
 - $2ab = ac + bc$
 - $2b = a + c$
 - $b^2 = ac$
61. If $f(x) = x|x|$, then for any real numbers a and b with $a < b$, the value of $\int_a^b f(x)dx$ equals :
- $\frac{1}{3}(a^3 + b^3)$
 - $\frac{1}{3}(a^3 - b^3)$
 - $\frac{1}{3}(|b|^3 - |a|^3)$
 - $\frac{1}{3}|b^3 - a^3|$
58. $x^2 - 2y^2 = 18$ तथा $x^2 + y^2 = 9$ की एक उभय स्पर्श रेखा है :
- $y = 2x + 3\sqrt{7}$
 - $y = \sqrt{2}x + 3\sqrt{5}$
 - $y = 2x + 3\sqrt{5}$
 - $y = \sqrt{2}x + 3\sqrt{3}$
59. $(1+t^2)^{12}(1+t^{12})(1+t^{24})$ के प्रसार में t^2 गुणांक है :
- ${}^{12}C_6 + 1$
 - ${}^{12}C_6$
 - ${}^{12}C_6 + 13$
 - ${}^{12}C_6 + 2$
60. यदि ऐखिक समीकरण निकाय $x + 2ay + az = 0$, $x + 3by + bz = 0$ $x + 4cy + cz = 0$ का एक शून्येतर हल है a, b, c संतुष्ट करते हैं :
- $2ac = ab + bc$
 - $2ab = ac + bc$
 - $2b = a + c$
 - $b^2 = ac$
61. यदि $f(x) = x|x|$ है, तो वास्तविक संख्याओं a तके लिए, जहाँ $a < b$ है, $\int_a^b f(x)dx$ बराबर है :
- $\frac{1}{3}(a^3 + b^3)$
 - $\frac{1}{3}(a^3 - b^3)$
 - $\frac{1}{3}(|b|^3 - |a|^3)$
 - $\frac{1}{3}|b^3 - a^3|$

62. $\int \frac{7x^{13} + 5x^{15}}{(x^7 + x^2 + 1)^3} dx$ equals :

(1) $\frac{x^7}{(x^7 + x^2 + 1)^2} + C$

(2) $\frac{x^7}{2(x^7 + x^2 + 1)^2} + C$

(3) $\frac{x^{14}}{(x^7 + x^2 + 1)^2} + C$

(4) $\frac{x^{14}}{2(x^7 + x^2 + 1)^2} + C$

63. Let $\vec{v} = 2\hat{i} + \hat{j} - \hat{k}$ and $\vec{w} = \hat{i} + 3\hat{k}$.

If \vec{u} is a unit vector, then the maximum value of the scalar triple product $[\vec{u} \vec{v} \vec{w}]$ is :

(1) $\sqrt{59}$

(2) $\sqrt{60}$

(3) $\sqrt{6}$

(4) $\sqrt{10} + \sqrt{6}$

62. $\int \frac{7x^{13} + 5x^{15}}{(x^7 + x^2 + 1)^3} dx$ बराबर है :

(1) $\frac{x^7}{(x^7 + x^2 + 1)^2} + C$

(2) $\frac{x^7}{2(x^7 + x^2 + 1)^2} + C$

(3) $\frac{x^{14}}{(x^7 + x^2 + 1)^2} + C$

(4) $\frac{x^{14}}{2(x^7 + x^2 + 1)^2} + C$

63. माना $\vec{v} = 2\hat{i} + \hat{j} - \hat{k}$ तथा $\vec{w} = \hat{i} + 3\hat{k}$

है। यदि \vec{u} एक मात्रक सदिश है, तो अदिश त्रिक

गुणनफल $[\vec{u} \vec{v} \vec{w}]$ का अधिकतम मान है :

$$\begin{aligned} & \vec{v} = 2\hat{i} + \hat{j} - \hat{k} \\ (1) \quad \sqrt{59} \vec{w} &= \hat{i} + 3\hat{k} \\ & [\vec{u} \vec{v} \vec{w}] \end{aligned}$$

(2) $\sqrt{60}$

(3) $\sqrt{6}$

(4) $\sqrt{10} + \sqrt{6}$

64. If a variable line, passing through the point of intersection of the lines $x + 2y - 1 = 0$ and $2x - y - 1 = 0$, meets the coordinate axes in A and B, then the locus of the mid-point of AB is :

(1) $x + 3y = 10 xy$

(2) $x + 3y + 10xy = 0$

(3) $x + 3y = 0$

(4) $x + 3y = 10$

64. यदि एक चर रेखा, रेखाओं $x + 2y - 1 = 0$ तथा $2x - y - 1 = 0$ के प्रतिच्छेद बिंदु से हो कर जाती है तथा निर्देशांक अक्षों को A तथा B पर काटती हैं, तो AB के मध्य-बिंदु का बिंदुपथ है :

(1) $x + 3y = 10 xy$

(2) $x + 3y + 10xy = 0$

(3) $x + 3y = 0$

(4) $x + 3y = 10$

65. Statement 1 : The line $2x + y + 6 = 0$ is perpendicular to the line $x - 2y + 5 = 0$ and second line passes through (1, 3).

Statement 2 : Product of the slopes of any two parallel lines is equal to -1 .

(1) Statement - 1 is true ; Statement - 2 is false.

(2) Statement - 1 is false ; Statement - 2 is true.

(3) Statement - 1 is true ; Statement - 2 is true; Statement - 2 is a correct explanation for Statement - 1.

(4) Statement - 1 is true ; Statement - 2 is true; Statement - 2 is not a correct explanation for Statement - 1.

65. कथन 1 : रेखा $2x + y + 6 = 0$ रेखा $x - 2y + 5 = 0$ पर लंबवत है तथा दूसरी रेखा (1, 3) से हो कर जाती है।

कथन 2 : दो समांतर रेखाओं की ढालों का गुणनफल -1 है।

(1) कथन - 1 सत्य है, कथन - 2 असत्य है।

(2) कथन - 1 असत्य है, कथन - 2 सत्य है।

(3) कथन - 1 सत्य है ; कथन - 2 सत्य है, कथन - 2, कथन - 1 की सही व्याख्या है।

(4) कथन - 1 सत्य है ; कथन - 2 सत्य है ; कथन - 2, कथन - 1 की सही व्याख्या नहीं है।

66. Let A and B be two events such that $P(A \cup B) \geq 3/4$ and $1/8 \leq P(A \cap B) \leq 3/8$.

Statement 1 : $P(A) + P(B) \geq 7/8$

Statement 2 : $P(A) + P(B) \leq 11/8$

- (1) Statement - 1 is true ; Statement - 2 is false.
- (2) Statement - 1 is false ; Statement - 2 is true.
- (3) Statement - 1 is true ; Statement - 2 is true; Statement - 2 is a correct explanation for Statement - 1.
- (4) Statement - 1 is true ; Statement - 2 is true; Statement - 2 is not a correct explanation for Statement - 1.

67. Consider

$$L_1 : 3x + y + \alpha - 2 = 0 ;$$

$L_2 : 3x + y - \alpha + 3 = 0$, where α is a positive real number, and

$$C : x^2 + y^2 - 2x + 4y - 4 = 0.$$

Statement 1 : If line L_1 is a chord of the circle C, then the line L_2 is not always a diameter of the circle C.

Statement 2 : If line L_1 is a diameter of the circle C, then the line L_2 is not a chord of the circle C.

Then,

- (1) Statement - 1 is true and statement - 2 is false.
- (2) Statement - 2 is true and Statement - 1 is false.
- (3) both the statements are true.
- (4) both the statements are false.

66. माना A तथा B ऐसी दो घटनाएँ हैं कि $P(A \cup B) \geq 3/4$ तथा $1/8 \leq P(A \cap B) \leq 3/8$ है।

कथन 1 : $P(A) + P(B) \geq 7/8$

कथन 2 : $P(A) + P(B) \leq 11/8$

(1) कथन - 1 सत्य है, कथन - 2 असत्य है।

(2) कथन - 1 असत्य है, कथन - 2 सत्य है।

(3) कथन - 1 सत्य है ; कथन 2 सत्य है, कथन - 2 कथन - 1 की सही व्याख्या है।

(4) कथन - 1 सत्य है; कथन - 2 सत्य है ; कथन - 2, कथन - 1 की सही व्याख्या नहीं है।

67. निम्न पर विचार कीजिए :

$$L_1 : 3x + y + \alpha - 2 = 0 ;$$

$L_2 : 3x + y - \alpha + 3 = 0$ है जबकि α एक धनात्मक वास्तविक संख्या है, तथा

$$C : x^2 + y^2 - 2x + 4y - 4 = 0.$$

कथन 1 : यदि L_1 वृत्त C की एक जीवा है, तो L_2 सदा वृत्त C का व्यास नहीं है।

कथन 2 : यदि L_1 वृत्त C का व्यास है, तो L_2 वृत्त C की जीवा नहीं है।

(1) कथन - 1 सत्य है, कथन - 2 असत्य है।

(2) कथन - 2 सत्य है, कथन - 1 असत्य है।

(3) दोनों कथन सत्य हैं।

(4) दोनों कथन असत्य हैं।

68. Let f and g be functions defined by
 $f(x) = \frac{1}{x+1}$, $x \in \mathbb{R}$, $x \neq -1$, and
 $g(x) = x^2 + 1$, $x \in \mathbb{R}$. Then gof is :

- (1) both one - one and onto.
- (2) neither one - one nor onto.
- (3) one - one but not onto.
- (4) onto but not one - one.

69. Let f be a differentiable function such that

$$8f(x) + 6f\left(\frac{1}{x}\right) - x = 5, (x \neq 0) \text{ and}$$

$y = x^2 f(x)$, then $\frac{dy}{dx}$ at $x = -1$ is :

- (1) $-\frac{1}{14}$
- (2) $\frac{1}{14}$
- (3) $\frac{15}{14}$
- (4) $-\frac{15}{14}$

70. If $z = i(i + \sqrt{2})$, then the value of $z^4 + 4z^3 + 6z^2 + 4z$ is :

- (1) 6
- (2) -9
- (3) -5
- (4) 3

68. माना f तथा g , $f(x) = \frac{1}{x+1}$, $x \in \mathbb{R}$, $x \neq -1$ तथा
 $g(x) = x^2 + 1$, $x \in \mathbb{R}$ द्वारा परिभ्रष्टि. फलन हैं तब
 gof :
- (1) एकेकी तथा आच्छादक दोनों हैं।
 - (2) न तो एकेकी है और न ही आच्छादक है।
 - (3) एकेकी है लेकिन आच्छादक नहीं है।
 - (4) आच्छादक है परन्तु एकेकी नहीं है।

69. माना f एक ऐसा अवकलनीय फलन है, कि

$$8f(x) + 6f\left(\frac{1}{x}\right) - x = 5, (x \neq 0) \text{ है तथा}$$

$y = x^2 f(x)$ है, तो $x = -1$ पर $\frac{dy}{dx}$ का मान है :-

- (1) $-\frac{1}{14}$
- (2) $\frac{1}{14}$
- (3) $\frac{15}{14}$
- (4) $-\frac{15}{14}$

70. यदि $z = i(i + \sqrt{2})$ है, तो $z^4 + 4z^3 + 6z^2 + 4z$ का मान है :

- (1) 6
- (2) -9
- (3) -5
- (4) 3

71. If for some real number a ,
 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin 2x + a \sin x}{x^3}$ exists, then the limit
is equal to :

- (1) 1
- (2) 2
- (3) -2
- (4) -1

72. $2 \cot^{-1}(7) + \cos^{-1}\left(\frac{3}{5}\right)$, in principal value,
is equal to :

- (1) $\tan^{-1}\left(\frac{41}{117}\right)$
- (2) $\operatorname{cosec}^{-1}\left(\frac{117}{125}\right)$
- (3) $\cos^{-1}\left(\frac{44}{125}\right)$
- (4) $\cos^{-1}\left(\frac{44}{117}\right)$

73. A tree, in each year, grows 5 cm less than it grew in the previous year. If it grew half a metre in the first year, then the height of the tree (in metres), when it ceases to grow, is :
- (1) 2.50
 - (2) 2.00
 - (3) 3.00
 - (4) 2.75

71. यदि किसी वास्तविक संख्या a के लिए $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin 2x + a \sin x}{x^3}$ का अस्तित्व है, तो यह सीमा बराबर है :

- (1) 1
- (2) 2
- (3) -2
- (4) -1

$$\cancel{\sin 2x + a \sin x}$$

72. $2 \cot^{-1}(7) + \cos^{-1}\left(\frac{3}{5}\right)$ का मुख्य मान बराबर है :

- (1) $\tan^{-1}\left(\frac{41}{117}\right)$
- (2) $\operatorname{cosec}^{-1}\left(\frac{117}{125}\right)$
- (3) $\cos^{-1}\left(\frac{44}{125}\right)$
- (4) $\cos^{-1}\left(\frac{44}{117}\right)$

73. एक पेड़ प्रतिवर्ष, पिछले वर्ष की अपेक्षा 5 से.मी. कम बढ़ता है। यदि वह पहले वर्ष में $1/2$ मी. बढ़ता है, तो जब यह बढ़ना बंद कर दे तो पेड़ की ऊँचाई (मीटरों में) है :

$$\cancel{5 \text{ cm}}$$

- (1) 2.50
- (2) 2.00
- (3) 3.00
- (4) 2.75

74. Let S be the set of all real matrices,

$$A = \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix} \text{ such that } a+d=2 \text{ and}$$

$$A^T = A^2 - 2A. \text{ Then } S :$$

- (1) has exactly two elements.
- (2) has exactly four elements.
- (3) is an empty set.
- (4) has exactly one element.

75. The integral $\int_{\sqrt{\ln 5}}^{\sqrt{\ln 7}} \frac{x \cos x^2 dx}{\cos(\ln 35 - x^2) + \cos x^2}$

is equal to :

$$(1) \frac{1}{4} \ln \frac{7}{5}$$

$$(2) \frac{1}{2} \ln \frac{7}{5}$$

$$(3) \frac{1}{4} \ln \frac{5}{7}$$

$$(4) \frac{1}{2} \ln \frac{5}{7}$$

76. If a variable plane passes through a fixed point $(1, -2, 3)$ and meets the coordinate axes at points A, B, C , then the point of intersection of the planes through A, B, C parallel to the coordinate planes lies on :

$$(1) xy - 2yz + 3zx = 3xyz$$

$$(2) xy + \frac{1}{2}yz - \frac{1}{3}zx = 6$$

$$(3) xy - \frac{1}{2}yz + \frac{1}{3}zx = 6$$

$$(4) yz - 2zx + 3xy = xyz$$

74. माना S सभी वास्तविक आव्यूहों का समुच्चय है,

$$A = \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix} \text{ ऐसा है कि } a+d=2 \text{ तथा}$$

$$AT = A^2 - 2A \text{ है, तो } S :$$

- (1) में केवल दो अवयव हैं।
- (2) में केवल चार अवयव हैं।
- (3) एक रिक्त समुच्चय है।
- (4) में केवल एक अवयव है।

75. समाकलन $\int_{\sqrt{\ln 5}}^{\sqrt{\ln 7}} \frac{x \cos x^2 dx}{\cos(\ln 35 - x^2) + \cos x^2}$
बीबर है :

$$(1) \frac{1}{4} \ln \frac{7}{5}$$

$$(2) \frac{1}{2} \ln \frac{7}{5}$$

$$(3) \frac{1}{4} \ln \frac{5}{7}$$

$$(4) \frac{1}{2} \ln \frac{5}{7}$$

76. यदि एक चर समतल एक स्थिर बिंदु $(1, -2, 3)$ से होकर जाता है तथा निर्देशांक अक्षों को बिंदुओं A, B, C पर काटता है, तो A, B, C से होकर जाने वाले, निर्देशांक अक्षों के समांतर समतलों का प्रतिच्छेदन बिंदु, जिस पर स्थित है, वह है :

$$(1) xy - 2yz + 3zx = 3xyz$$

$$(2) xy + \frac{1}{2}yz - \frac{1}{3}zx = 6$$

$$(3) \checkmark xy - \frac{1}{2}yz + \frac{1}{3}zx = 6$$

$$(4) yz - 2zx + 3xy = xyz$$

77. Suppose a population A has 100 observations 101, 102, ..., 200 and another population B has 100 observations 151, 152, ..., 250. If V_A and V_B represent the variances of two populations respectively, then the ratio $V_A : V_B$ is :

- (1) 1 : 2
- (2) 3 : 2
- (3) 1 : 1
- (4) 2 : 3

78. Statement 1 : If three positive numbers in G.P. represent the sides of a triangle, then the common ratio of the G.P. must lie between $\frac{\sqrt{5} - 1}{2}$ and $\frac{\sqrt{5} + 1}{2}$.

Statement 2 : Three positive numbers can form sides of a triangle if sum of any two numbers is greater than the third number.

- (1) Statement - 1 is true ; Statement - 2 is false.
- (2) Statement - 1 is false ; Statement - 2 is true.
- (3) Statement - 1 is true ; Statement - 2 is true; Statement - 2 is a correct explanation for Statement - 1.
- (4) Statement - 1 is true ; Statement - 2 is true; Statement - 2 is not a correct explanation for Statement - 1.

77. यदि एक समस्त A में 100 प्रेक्षण 101, 102, ..., 200 हैं तथा दूसरी समस्त B में 100 प्रेक्षण 151, 152, ..., 250 हैं। यदि V_A तथा V_B क्रमशः दोनों समस्तियों के प्रसरणों को दर्शाते हैं, तो अनुपात $V_A : V_B$ है :

$$\begin{array}{c} 100 \\ 101, 102, \dots, 200 \\ (51, 152, \dots, 250) \\ V_A \text{ and } V_B \end{array}$$

- (1) 1 : 2
- (2) 3 : 2
- (3) 1 : 1
- (4) 2 : 3

78. **कथन 1 :** यदि गुणात्मक श्रेढ़ी की तीन धनात्मक संख्याएँ एक त्रिभुज की भुजाओं को निरूपित करती हैं, तो गुणोत्तर श्रेढ़ी का सार्व अनुपात

$$\frac{\sqrt{5} - 1}{2} \text{ तथा } \frac{\sqrt{5} + 1}{2} \text{ के बीच स्थित है। } \quad \frac{\sqrt{5}-1}{2} \text{ } \frac{\sqrt{5}+1}{2}$$

कथन 2 : यदि तीन धनात्मक संख्याओं में किन्हीं दो का योग तीसरी से बड़ा हो, तो यह संख्याएँ एक त्रिभुज की भुजाओं को निरूपित कर सकती हैं :

- (1) कथन - 1 सत्य है, कथन - 2 असत्य है।
- (2) कथन - 1 असत्य है, कथन - 2 सत्य है।
- (3) कथन - 1 सत्य है ; कथन 2 सत्य है, कथन - 2, कथन - 1 की सही व्याख्या है।
- (4) कथन - 1 सत्य है; कथन - 2 सत्य है ; कथन - 2, कथन 1 की सही व्याख्या नहीं है।

79. The general solution of the differential equation

$$\frac{dy}{dx} + \sin\left(\frac{x+y}{2}\right) = \sin\left(\frac{x-y}{2}\right) \text{ is :}$$

(1) $\log\left(\cot\frac{y}{2}\right) + 2\sin x = C$

(2) $\log\left(\cot\frac{y}{4}\right) + 2\sin\frac{x}{2} = C$

(3) $\log\left(\tan\frac{y}{2}\right) + 2\sin x = C$

(4) $\log\left(\tan\frac{y}{4}\right) + 2\sin\frac{x}{2} = C$

80. The angle between the lines $2x=3y=-z$ and $-6x=y=4z$ is :

(1) 90°

(2) 0°

(3) 30°

(4) 45°

- 0 0 -

79. अवकूल समीकरण

$$\frac{dy}{dx} + \sin\left(\frac{x+y}{2}\right) = \sin\left(\frac{x-y}{2}\right) \text{ का सामान्य हल है :}$$

(1) $\log\left(\cot\frac{y}{2}\right) + 2\sin x = C$

(2) $\log\left(\cot\frac{y}{4}\right) + 2\sin\frac{x}{2} = C$

(3) $\log\left(\tan\frac{y}{2}\right) + 2\sin x = C$

(4) $\log\left(\tan\frac{y}{4}\right) + 2\sin\frac{x}{2} = C$


80. रेखाओं $2x=3y=-z$ तथा $-6x=y=4z$ के बीच का कोण है :

(1) 90°

(2) 0°

(3) 30°

(4) 45°



$$\frac{dy}{dx} + \sin\left(\frac{x+y}{2}\right) = \sin\left(\frac{x-y}{2}\right)$$

Read the following instructions carefully:

- Part I has 50 objective type questions of (Aptitude Test) consisting of FOUR (4) marks each for each correct response. Part II Mathematics has 30 objective type questions consisting of FOUR (4) marks for each correct response. Part III consists of 2 questions carrying 70 marks which are to be attempted on a separate Drawing Sheet which is also placed inside this Test Booklet. Marks allotted to each question are written against each question. For each *incorrect response* in Part I and Part II, *one-fourth* ($\frac{1}{4}$) of the total marks allotted to the question would be deducted from the total score. *No deduction* from the total score, however, will be made if *no response* is indicated for an item in the Answer Sheet.
- Handle the Test Booklet, Answer Sheet and Drawing Sheet with care, *assuming no circumstances* (except for discrepancy in Test Booklet Code and Answer Sheet Code), another set will be provided.
- The candidates are not allowed to do any rough work or writing work on the Answer Sheet. All calculations/writing work are to be done on the space provided for this purpose in the Test Booklet itself, marked 'Space for Rough Work'. This space is given at the bottom of each page and in 3 pages (pages 25 - 27) at the end of the booklet.
- Each candidate must show on demand his/her Admit Card to the Invigilator.
- No candidate, without special permission of the Superintendent or Invigilator, should leave his/her seat.
- On completion of the test, the candidates should not leave the examination hall without handing over their Answer Sheet of Aptitude Test and Mathematics-Part I & II and Drawing Sheet of Aptitude Test-Part III to the Invigilator on duty and sign the Attendance Sheet at the time of handing over the same. Cases where a candidate has not signed the Attendance Sheet the second time will be deemed not have handed over these documents and dealt with as an unfair means case. The candidates are also required to put their left hand THUMB impression in the space provided in the Attendance Sheet. However, the candidates are allowed to take away with them the Test Booklet of Aptitude Test and Mathematics - Part I & II.
- Use of Electronic/Manual Calculator or drawing instruments (such as scale, compass etc.) is not allowed.
- The candidates are governed by all Rules and Regulations of the JAB/Board with regard to their conduct in the Examination Hall. All cases of unfair means will be dealt with as per Rules and Regulations of the JAB/Board.
- No part of the Test Booklet, Answer Sheet and Drawing Sheet shall be detached/folded or defaced under any circumstances.
- The candidates will write the Test Booklet Number as given in the Test Booklet, Answer Sheet and Drawing Sheet in the Attendance Sheet also.
- Candidates are not allowed to carry any textual material, printed or written, bits of papers, pager, mobile phone, electronic device or any other material except the Admit Card inside the examination hall/room.

निम्नलिखित निर्देश ध्यान से पढ़ें :

- पुस्तिका के भाग I में (अभिरुचि परीक्षण) के 50 वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं जिसमें प्रत्येक प्रश्न के सही उत्तर के लिए चार (4) अंक निर्धारित किये गये हैं। भाग II गणित में 30 वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं जिनमें प्रत्येक सही उत्तर के लिए चार (4) अंक हैं। पुस्तिका के भाग III में 2 प्रश्न हैं जिनके लिए 70 अंक निर्धारित हैं। यह प्रश्न इसी परीक्षा पुस्तिका के अन्दर रखी ड्राइंग शीट पर करने हैं। प्रत्येक प्रश्न हेतु निर्धारित अंक प्रश्न के सम्मुख अंकित हैं। भाग I और भाग II में प्रत्येक गलत उत्तर के लिए उस प्रश्न के लिए निर्धारित कुल अंकों में से एक-चौथाई ($\frac{1}{4}$) अंक कुल योग में से काट लिए जाएँगे। यदि उत्तर पत्र में किसी प्रश्न का कोई उत्तर नहीं दिया गया है, तो कुल योग में से कोई अंक नहीं काटे जाएँगे।
- परीक्षा पुस्तिका, उत्तर पत्र एवं ड्राइंग शीट का ध्यानपूर्वक प्रयोग करें, क्योंकि किसी भी परिस्थिति में (केवल परीक्षा पुस्तिका एवं उत्तर पत्र के कोड में भिन्नता की स्थिति को छोड़कर) दूसरी परीक्षा पुस्तिका उपलब्ध नहीं करायी जाएगी।
- परीक्षार्थियों को उत्तर पत्र पर कोई भी रफ कार्य या लिखाई का काम करने की अनुमति नहीं है। सभी गणना एवं लिखाई का काम, परीक्षा पुस्तिका में निर्धारित जगह जो कि 'रफ कार्य के लिए जगह' द्वारा नामांकित है, पर ही किया जायेगा। यह जगह प्रत्येक पृष्ठ पर नीचे की ओर तथा पुस्तिका के अंत में 3 पृष्ठों (पृष्ठ 25 - 27) पर दी गई है।
- पूछे जाने पर प्रत्येक परीक्षार्थी निरीक्षक को अपना प्रवेश कार्ड दिखाएँ।
- अधीक्षक या निरीक्षक की विशेष अनुमति के बिना कोई परीक्षार्थी अपना स्थान न छोड़ें।
- परीक्षा समाप्त होने पर, परीक्षार्थी निरीक्षकों को अपने अभिरुचि परीक्षण - भाग I एवं गणित - भाग II का उत्तर पत्र एवं अभिरुचि परीक्षण - भाग III की ड्राइंग शीट देने और उपस्थिति पत्र पर अपने हस्ताक्षर दोबारा करने के पश्चात् ही परीक्षा हाल छोड़ें। ऐसा न करने पर यह माना जायेगा कि उत्तर पत्र एवं ड्राइंग शीट नहीं लौटाए गए हैं जिसे अनुचित साधन प्रयोग की श्रेणी में माना जायगा। परीक्षार्थी अपने बायें हाथ के अंगूठे का निशान उपस्थिति पत्र में दिए गए स्थान पर अवश्य लगाएँ। तथापि, परीक्षार्थी अपनी अभिरुचि परीक्षण एवं गणित - भाग I एवं II की परीक्षा पुस्तिका को ले जा सकते हैं।
- इलेक्ट्रॉनिक/हस्तचालित परिकलक या ड्राइंग उपकरण (जैसे कि स्केल, कंपास इत्यादि) का प्रयोग वर्जित है।
- परीक्षा हाल में आचरण के लिए परीक्षार्थी ज.ए.ब./बोर्ड के नियमों एवं विनियमों द्वारा नियमित होंगे। अनुचित साधन प्रयोग के सभी मामलों का फैसला ज.ए.ब./बोर्ड के नियमों एवं विनियमों के अनुसार होगा।
- किसी भी स्थिति में परीक्षा पुस्तिका, उत्तर पत्र एवं ड्राइंग शीट का कोई भी भाग न तो अलग किया जाएगा और न ही मोड़ा जायेगा अथवा बिगड़ा जायेगा।
- परीक्षा पुस्तिका, उत्तर पत्र एवं ड्राइंग शीट में दी गई परीक्षा पुस्तिका संख्या को परीक्षार्थी सही तरीके से हाजिरी पत्र में भी लिखें।
- परीक्षार्थी द्वारा परीक्षा हॉल/कक्ष में प्रवेश कार्ड के सिवाय किसी प्रकार की पाठ्य सामग्री, मुद्रित या हस्तलिखित, कागज की पर्चियाँ, पेजर, मोबाइल फोन, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण या किसी अन्य प्रकार की सामग्री को ले जाने या उपयोग करने की अनुमति नहीं है।